

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 320]
No. 320]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 3, 2001/अग्रहायण 12, 1923
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 3, 2001/AGRAHAYANA 12, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय

शुद्धि पत्र

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2001

विषय : जापान, कोरिया, चीन और बंगलादेश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित लौह एसिड बैटरीज के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के सम्बन्ध में वचन पत्र स्वीकार करना।

संख्या 67/1/2000-डीजीएडी.— वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन तथा संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियम 1995 को ध्यान में रखते हुए, दिनांक 2 नवम्बर, 2001 की अधिसूचना सं.67/1/2000-डीजीएडी के पैरा 3(1) में निम्नलिखित तथ्य जोड़ गए हैं, अर्थात:-

कंपनी इस बात पर सहमत हुई है कि वह निम्नलिखित वचन पत्र के कीमत ढांचे में दी गई कीमतों से कम कीमत पर भारत में आयातकों को सबद्ध वस्तुओं की बिक्री नहीं करेगी।

उत्पाद: मेनटेनेंस फ्री लैड एसिड ऑटोमोटिक बैटरीज

माडल सं.	विवरण	सी आई एफ आई सी डी, नई दिल्ली ए एच क्षमता रेटिंग ए टी 20 एच आर द क्षमता। कीमत रेटिंग विवरण
एन एस 40 एम एफ	12 वी 32 ए एच	अमरीकी डालर 12.93
38 बी 20 आर	12 वी 35 ए एच	अमरीकी डालर 14.74
85 बी 60 के	12 वी 55 ए एच	अमरीकी डालर 19.58
एन एक्स 120-7 एम एफ	12 वी 80 ए एच	अमरीकी डालर 24.13
एन 88	12 वी 88 ए एच	अमरीकी डालर 27.75
एन 100	12 वी 100 ए एच	अमरीकी डालर 34.19
एन 120	12 वी 120 ए एच	अमरीकी डालर 41.56
एन 150	12 वी 150 ए एच	अमरीकी डालर 47.56

सभी कीमतें साईट आधार पर ओर सी आई एफ आई सी डी, नई दिल्ली/तुगलकाबाद आधार पर साख पत्र पर प्रति नग यू एस डालर में उद्धृत की हैं। वचन पत्र में दिए गए कीमत ढांचे में उल्लिखित बिक्री कीमतें संबद्ध वस्तुओं के उन पोत लदानों पर लागू होंगी जिनका भारत में आयात प्राधिकारी द्वारा इस वचनबद्धता की स्वीकृति की तारीख को अथवा उसके बाद में अथवा ऐसी किसी अन्य उपर्युक्त तारीख को किया गया हो।

एल. बी. सप्तगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 3rd December, 2001

Subject : Acceptance of an undertaking in connection with Anti-dumping investigation concerning import of Lead Acid Batteries in or exported from Japan, Korea, China and Bangladesh.

No. 67/1/2000-DGAD.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, the following additions are made in para 3(i) of the Notification No. 67/1/2000-DGAD dated 2nd November, 2001, namely :-

The company has agreed not to sell subject goods to importers in India at prices lower than the prices stipulated in the following Price Undertaking Grid.

Product : Maintenance Free Lead Acid Automotive Batteries

Model No.	Description (AH CAPACITY RATING AT 20HR RATE)	Undertaking Unit Price on CIF ICD New Delhi/ Tuglakahbad basis
NS40MF	12V 32 AH	US\$ 12.93
38B20R	12V 35 AH	US\$ 14.74
85B60K	12V 55 AH	US\$ 19.58
NX120-7MF	12V 80 AH	US\$ 24.13
N88	12V 88 AH	US\$ 27.75
N100	12V 100 AH	US\$ 34.19
N120	12V 120 AH	US\$ 41.56
N150	12V 150AH	US\$ 47.56

All prices are quoted in US Dollar per piece on Letter of Credit at sight basis and on CIF ICD New Delhi/Tuglakahbad basis. The selling prices in the undertaking price grid shall apply to shipments of the subject goods that are imported into India on or after the date of acceptance of this undertaking by the authority or such other date as may be appropriate.

L. V. SAPTHARISHI, Designated Authority

